



RailTel/Sectt/21/SE/S-16

Date: October 27, 2023

<p>लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, 'एक्सचेंज प्लाज़ा', सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400 051</p> <p>Listing Department, National Stock Exchange of India Limited 'Exchange Plaza', C-1, Block G, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051</p>	<p>कॉर्पोरेट संबंध विभाग, बीएसई लिमिटेड, रोटुंडा बिल्डिंग, पी जे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, किला, मुंबई - 400 001</p> <p>Corporate Relationship Department, BSE Limited, Rotunda Building, P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001</p>
Scrip Symbol- RAILTEL	Scrip Code- 543265

Sub: Submission of Newspaper Publication regarding unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2023.

Dear Sir/Madam,

Copy of advertisement published in Newspaper (English and Hindi daily) in relation to the unaudited Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2023 as approved by the Board of Directors in their meeting held on 26th October, 2023 are enclosed herewith for your information and record. Copies of the said advertisement are also available on the website of the Company at www.railtelindia.com

2. Please take note of the above document on record.

धन्यवाद,

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए

जे. एस. मारवाह

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्या – एफ सी एस 8075

संलग्न: ऊपरोक्त अनुसार

- वितरण:- 1) सहायक कंपनी सचिव को फाइल में रखने हेतु।
2) सहायक महाप्रबंधक/पी.आर.ओ.को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

**रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार का उपकरण)
RailTel Corporation of India Ltd. (A Government of India Undertaking)**

CIN : L64202DL2000GOI107905

Registered & Corporate Office : Plate-A, 6th Floor, Office Block-2, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023,
T : +91 11 22900615, F : +91 11 22900699
Website : www.railtelindia.com

Shriram Finance PAT rises 12.6%

FE BUREAU
Mumbai, October 26

THE NET PROFIT of Shriram Finance rose nearly 12.6% year-on-year in July-September due to a growth in its assets undermanagement. The company posted a net profit of ₹1,751 crore in the quarter under review, up 4.5% QoQ.

On a consolidated basis, the bottom line rose 13.5% y-o-y to nearly ₹1,792 crore in the quarter under review.

Assets under management rose 19.7% to ₹2 trillion as on September 30.

Net interest income rose 17.4% y-o-y to ₹4,818 crore in the September quarter. The net interest margin rose to 8.93%, from 8.26% a year ago.

Sundaram Home Finance net rises 18%

Sundaram Home Finance has registered an 18% rise in its net profit to ₹59.33 crore for Q2FY24, compared with ₹50.30 crore in the year-ago period. Disbursements for the quarter went up 29% to ₹1,213.87 crore, compared to ₹940.56 crore. Net profit for the half-year period increased 20% to ₹116.75 crore, compared to ₹97.56 crore. The company had forayed into the small business loans segment in October last year. In the first year of its entry, it has opened 25 exclusive SBL branches in Tamil Nadu and hired over 150 people for this segment.

● K SATYANARAYANA RAJU, MD & CEO, CANARA BANK

'Will recover over ₹1,800 cr each qtr from written-off accounts'

Canara Bank will focus on recovering more than ₹1,800 crore from written-off accounts each quarter this fiscal, MD & CEO K Satyanarayana Raju told Piyush Shukla in an interview. Excerpts:

What is your outlook on credit growth for H2FY24?

The present demand from the retail, agriculture and micro, small and medium enterprises (RAM) sector will likely continue, so that will be our focus. We will continue posting more than 5% quarter-on-quarter and around 13%-14% year-over-year growth in the RAM segment.

The bank has sanctioned ₹30,000 crore of corporate loans that are yet to be disbursed. Is loan pricing more favorable now?

There is demand for corporate loans, but there is margin stress and interest expenses. I cannot look at just top line growth, I must look at the bottom line. Accordingly, we are investing in long-term brownfield projects, greenfield projects and we are not giving an AAA-rated corporate a ₹10,000-crore loan at throwaway prices. We may grow our corporate book by 10%-11%.

What are you doing to raise other income as it moderated in Q2?

We are focusing on fee income. We automated all 218 of our service charges and are getting good income. Secondly, we are focusing on our non-fund-based business. We have centralised issues like turnaround time and are encouraging some field officials also to take deci-



WE ARE FOCUSING ON FEE INCOME.
WE AUTOMATED ALL 218 OF OUR SERVICE CHARGES AND ARE GETTING GOOD INCOME

the pace continue in H2? We are expecting to recover same amount in Q3. We cannot afford to recover less because there is no alternate stream to compensate and treasury gains are lower. We are totally dependent on core banking income.

Will CASA continue to grow sequentially?

Yes, we are definitely aiming for 1% QoQ growth in CASA. Last quarter's initiatives have started showing results and the product for salaried class customers is performing well. On April 1, the outstanding balance of salaried class customers was ₹4,400 crore, and as on date, it is around ₹6,700 crore – an incremental growth of ₹2,300 crore just from this product.

What are your branch expansion plans for H2?

In all, 275 branches will be opened in the current fiscal, 60 of them have already been opened.

Is there traction on CBDC transactions? We are seeing traction. Today, we are witnessing total CBDC retail transactions of around 3,000 per day. One-third of these transactions are interoperable with UPI QR code.

The Centre is reportedly moving ahead with privatisation of 2 more PSBs. Have you received any communication in this regard?


So far there has not been any such discussion with us.

Canara Bank Q2 profit jumps 43%

PIYUSH SHUKLA
Mumbai, October 26

REPORT CARD

Canara Bank result



the lender has sanctioned around ₹22,000 crore of infrastructure loans till date, of which ₹16,000 crore is yet to be disbursed. Overall, the lender has ₹30,000 crore of loans that are sanctioned, but yet to be disbursed. The lender is aiming to grow its loan book by 10.5% in the current fiscal.

On the asset quality front, the gross and net non-performing (GNPA, NNPA) ratios moderated to 4.76% and 1.41%, respectively, from 6.37% and 2.19% in the year-ago period. The bank aims to trim these to 4.50% and 1.20%, respectively, by the end of FY24.

At a post-earnings conference, MD and CEO KS Raju said

retail term deposits, Raju said. The net interest income (NII), or the difference between interest earned and expended, grew 20% YoY to ₹8,903 crore. The net interest margin (NIM) moderated 3 basis points (bps) on a sequential basis to 3.02%.

The MD agreed that there is pressure on margins due to higher interest expenses and said if liquidity improves, the NIM can be maintained at 3% level. In case liquidity continues to be tight, the NIM may moderate in the range of 2.9%-3.05% during H2. "We are effectively operating it by repricing or replacing low-yield assets with high-yielding advances," Raju said.

WESTLIFE FOODWORLD LIMITED

(Formerly Known As WESTLIFE DEVELOPMENT LIMITED)
Regd. Office : 1001, Tower - 3, 10th Floor, Indiabulls Finance Centre, Senapati Bapat Marg, Prabhadevi, Mumbai 400 013.

CIN No. : L65990MH1982PLC028593 Tel : 022-4913 5000 Fax : 022-4913 5001

Website : www.westlife.co.in | E-mail id : shatadru@westlife.co.in



westlife

दक्षिण रेलवे

शुद्धित्र

निम्नाखिल शुद्धित्र आईआरटीपीएस बैरेसिट में प्रक्रियत किए गए हैं। फॉर्म से अनुरोध है कि इसके विवरण के लिए <http://ireps.gov.in-login.eTender-Goods@Services> (नमा) पर लोग इन करें।

निवादा सूचना सं.	मद्रासाक सं.	निवादा सं.	मद्रासा	मौजूदा	इस स्पष्ट में पढ़ें
E-20/2023	24	78235940B	बी. पी. सी. बी.	आयनोरिक परीक्षण प्राप्ति	78235940B 78235940B सुमित्र कुमार
E-19/2023	53	78236072A	सीरीज़ एक्सप्रेस टर्मिन लेथ	23.10.2023	15.11.2023
E-18/2023	21	78236100	हेंटी छाड़ी टर्मिन लेथ	23.10.2023	15.11.2023
E-18/2023	22	78236099	हाईड्रोलिक डील प्रेस	23.10.2023	15.11.2023

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक

Follow us on : twitter.com/GMSRailway

गुमशुदा की तलाश



सर्वाधारण को सूचित किया जाता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम सुमित्र कुमार पुत्र मनोज कुमार पता मकान नं. 431, पैकेट-6, सेक्टर-ए, पुलिस कॉलोनी, नरेला, दिल्ली जो दिनांक 20.10.2023, 10.00 बजे अपने घर से थाना क्षेत्र, नरेला, दिल्ली के लिए गुमशुदा व्यक्ति का जारी इस प्रकार है:

नाम : सुमित्र कुमार, उम्र : 23.5 साल, शरीर : सामान्य, कद : 5 फूट, 6 इंच, रंग : गोरा, चेहरा : गोल, पहनाव : ये ग्रे की टी-शर्ट और नीले रंग पैजामा और ऐरोपेर में स्पॉट जूता पहने हुए है।

अगर किसी व्यक्ति को इस बारे में काई जानकारी/सूचना मिले तो कृपया निम्नाखिल फोन नम्बरों पर सूचित करें।

थानाध्यक्ष थाना : नरेला, दिल्ली
फोन : 011-27280435
7065036323
DP/12130/ON/2023

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 Cr.P.C. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त तरुण कुमार पुत्र श्री किशन निवासी ई-226, 25 फूटा रोड, ईस्ट गोकुलपुर, भौत नगर, दिल्ली ने एक्साइंटर नामं / सीरीज़ नं. 15573 / 17 अन्तर्गत धारा 138 एनआई एक्ट के तहत की जारी रिपोर्ट गोरे, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेश है कि उन्हें किया है) और उन पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया है कि उक्त अभियुक्त तरुण कुमार मिल नहीं रहा है और मुझे समाजान्वयन रूप से दर्शक कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त तरुण कुमार फरार हो गया है (या उक्त वारंट की वारंट को यह लिखकर लौटा दिया है कि उक्त अभियुक्त तरुण कुमार फरार हो गया है) इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि एक्साइंटर नामं / सीरीज़ नं. 15573 / 17 अन्तर्गत धारा 138 एनआई एक्ट के तहत थाना की रिपोर्ट गोरे, दिल्ली के उक्त अभियुक्त तरुण कुमार से अंजाम की जाती है कि वह इस न्यायालय के सम्बन्ध (या मेरे सम्बन्ध) उक्त वारंट का उत्तर देने के लिए दिनांक 13.12.2023 की ओर संपर्क हाजिर हो।

आदेशनुसार

सुनी सामी जायपालवाल
एल.डी., महानगर दण्डाधिकारी (एनआई-एक्ट)
(केंद्रीय), कमरा नं.-02, भू-तल
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली

धारा 82 सीआरपीसी देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त तरुण कुमार पुत्र श्री किशन निवासी ई-226, 25 फूटा रोड, ईस्ट गोकुलपुर, भौत नगर, दिल्ली ने एक्साइंटर नामं / सीरीज़ नं. 15573 / 17 अन्तर्गत धारा 138 एनआई एक्ट के तहत की जारी रिपोर्ट गोरे, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेश है कि उन्हें किया है) और उन पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त तरुण कुमार मिल नहीं रहा है और मुझे समाजान्वयन रूप से दर्शक कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त तरुण कुमार फरार हो गया है (या उक्त वारंट की वारंट को यह लिखकर लौटा दिया है कि उक्त अभियुक्त तरुण कुमार फरार हो गया है) इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि एक्साइंटर नामं / सीरीज़ नं. 15573 / 17 अन्तर्गत धारा 138 एनआई एक्ट के तहत थाना की रिपोर्ट गोरे, दिल्ली के उक्त अभियुक्त तरुण कुमार से अंजाम की जाती है कि वह इस न्यायालय के सम्बन्ध (या मेरे सम्बन्ध) उक्त वारंट का उत्तर देने के लिए दिनांक 13.12.2023 की ओर संपर्क हाजिर हो।

आदेशनुसार

श्री वैष्णव चौरसिया
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (उत्तर पश्चिम),
कमरा नं. 112, प्रधम तल,
रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

धारा 82 सीआरपीसी देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त तरुण कुमार पुत्र श्री किशन निवासी ई-226, 25 फूटा रोड, ईस्ट गोकुलपुर, भौत नगर, दिल्ली ने एक्साइंटर नामं / सीरीज़ नं. 15573 / 17 अन्तर्गत धारा 138 एनआई एक्ट के तहत की जारी रिपोर्ट गोरे, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेश है कि उन्हें किया है) और उन पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त तरुण कुमार मिल नहीं रहा है और मुझे समाजान्वयन रूप से दर्शक कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त तरुण कुमार फरार हो गया है (या उक्त वारंट की वारंट को यह लिखकर लौटा दिया है कि उक्त अभियुक्त तरुण कुमार फरार हो गया है) इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि एक्साइंटर नामं / सीरीज़ नं. 15573 / 17 अन्तर्गत धारा 138 एनआई एक्ट के तहत थाना की रिपोर्ट गोरे, दिल्ली के उक्त अभियुक्त तरुण कुमार से अंजाम की जाती है कि वह इस न्यायालय के सम्बन्ध (या मेरे सम्बन्ध) उक्त वारंट का उत्तर देने के लिए दिनांक 13.12.2023 की ओर संपर्क हाजिर हो।

आदेशनुसार

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (उत्तर पश्चिम),
कमरा नं. 112, प्रधम तल,
रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

धारा 82 सीआरपीसी देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त तरुण कुमार पुत्र श्री किशन निवासी ई-226, 25 फूटा रोड, ईस्ट गोकुलपुर, भौत नगर, दिल्ली ने एक्साइंटर नामं / सीरीज़ नं. 15573 / 17 अन्तर्गत धारा 138 एनआई एक्ट के तहत की जारी रिपोर्ट गोरे, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेश है कि उन्हें किया है) और उन पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त तरुण कुमार मिल नहीं रहा है और मुझे समाजान्वयन रूप से दर्शक कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त तरुण कुमार फरार हो गया है (या उक्त वारंट की वारंट को यह लिखकर लौटा दिया है कि उक्त अभियुक्त तरुण कुमार फरार हो गया है) इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि एक्साइंटर नामं / सीरीज़ नं. 15573 / 17 अन्तर्गत धारा 138 एनआई एक्ट के तहत थाना की रिपोर्ट गोरे, दिल्ली के उक्त अभियुक्त तरुण कुमार से अंजाम की जाती है कि वह इस न्यायालय के सम्बन्ध (या मेरे सम्बन्ध) उक्त वारंट का उत्तर देने के लिए दिनांक 13.12.2023 की ओर संपर्क हाजिर हो।

आदेशनुसार

श्री वैष्णव चौरसिया
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (उत्तर पश्चिम),
कमरा नं. 112, प्रधम तल,
रोहिणी कोर्ट, दिल्ली

धारा 82 सीआरपीसी देखिए

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त तरुण कुमार पुत्र श्री किशन निवासी ई-226, 25 फूटा रोड, ईस्ट गोकुलपुर, भौत नगर, दिल्ली ने एक्साइंटर नामं / सीरीज़ नं. 15573 / 17 अन्तर्गत धारा 138 एनआई एक्ट के तहत की जारी रिपोर्ट गोरे, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेश है कि उन्हें किया है) और उन पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त तरुण कुमार मिल नहीं रहा है और मुझे समाजान्वयन रूप से दर्शक कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त तरुण कुमार फरार हो गया है (या उक्त वारंट की वारंट को यह लिखकर लौटा दिया है कि उक्त अभियुक्त तरुण कुमार फरार हो गया है) इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि एक्साइंटर नामं / सीरीज़ नं. 15573 / 17 अन्तर्गत धारा 138 एनआई एक्ट के तहत थाना की रिपोर्ट गोरे, दिल्ली के उक्त अभियुक्त तरुण कुमार से अंजाम की जाती है कि वह इस न्यायालय के सम्बन्ध (या मेरे सम्बन्ध) उक्त वारंट का उत्तर देने के लिए दिनांक 13.12.2023 की ओर संपर्क हाजिर हो।

आदेशनुसार

श्री वैष्णव चौरसिया
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (उत्तर पश्चिम),
कमरा नं. 112, प्रधम तल,
रोहिणी कोर्ट, द